ता
कंश
कार
तारा
५





वृश्चिका ऽाकार
तारा ११

॥ नाडिपद्म





२ ता २०: ॥



॥श्रवण २३
कावडाकश्राका
तारा: ३:


धनदा २४
कनाश्राका
र ता रा ५:





शत २५
वाघस्याकुल:
नऽकार तारा
॥१००:

नावानश्राका
र तारा:



नावानऽा
तारा ३२

नक्षत्र:



१३ चित्तमांहेचित्तरूपकरेतिहांकुंवूमेहोलाल करेतिहांकुंवहु,
वहनजिसोउवेको
हांतसचितमोकला वांकोलांवाहोवरहे
रहेतमोकला १४ बि
लाजा। नवाकरांहोलाल
हियबकुवे
मीलीहें कि
हाथव १५ के
नयरमांहेनिकल्याहोलाल नयर
वलव जिं
तिहा
आवाराजकुमारदिलीवोलाविचाहोलाल मिली
१६ आवीआवीजुहारपधरीवोमणाहोलाल पधा
हिसोसकवंररूपंघणएसोहामणाहोलाल घणा कीहा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ढोला मारु
४३

री आंगणि होलाल घरोघरी आंगणि होलाल सघलैंमनीमालइविण
णऊंणि होलाल वीणारणऊणि होलाल ४ गाइ चारिंगोवालीयाचीणवज
वता होलाल विणवजावतां होलाल राजकुंवरनिवादमनोरथनावता हो
लाल मनोरथसावतां होल श्रुणीमुकमित्रमीलिइंनऊकरसणि होला
ला मिलइंबऊंकरसणि होलाल सोभैवीणावजावणकुंसरंयणी होला दि॰
कुसहिंरंयणी होलाल ५ टेहनगरमांहिएदुचुंकोतीकथइरत्युं होलाल कौ
तिकथइरलूं होलाल वीतेंवणितवातनजाइपणाकलूं होलाल नजा
इंपणाकलूं होलाल सुणिऊंयरतेवातद्रियरिझ्योयणं होलाल दिइरी
झ्योयणो होलाल सारस्वादतेंरसारदीइंवधामणं होलाल ६ आ मोह
जआवासीकुंयरमनचितवे होलाल कुंयरमनचितवे नयनरकूं
तेइरतोकीमज्योस्यांहिवे होलाल किमजोस्यांहिवे देतदिखलायोवं
तोमांणासरूअणं होलाल मांणसरूयणं फरिकोतिकजातजुरंमुयणं
होलाल मुइंसुयणं ७ सीहचकमुंऊंएद्दमनोरथपुरस्यें होलाल मनोर
थपुरस्यें एहिजमुऊआधारविघनसवीचुरस्यें होलाल विघनसविचुर ४३

रलेहेंहोलाल ७४ हेदतणांरूपनोगर्वरे तिहांकुंअरश्रीपालरे च० नयणांत्रिति
परवस्योहोलाल श्रीजिंरवेमेदमकरीरे विनयेंचोथीढालरे च० सिद्धचक्रमहिमा
फल्योहोलाल ७५ दूहा एकदिनरयवाडीचढ्यो रमवाकुंअरश्रीपाल साथ
तिहांबहुतस्यो दीठोऋद्धिविशाल ७६ सार्थवाहलेइभेटणुं आव्योकुंअर
पाय तवतेहनेंपूछेंहस्युं कुंयरकरीसुपसाय ७७ कुणदेशथीआवीया किहां
जावाउमनाव सार्थवाहतववीनवें करजोडीसद्भाव ७८ आव्याकांतीनयर
थी कंबुद्दीपउदेस कुंअरकहेंकोइकह्यो अवरिजदीठविसेस ७९ तेहकहें
अचरिजसुणो नयरएकअभिराम कोसहहांथीच्यारसें कुंडलपूरतसनाम
८० मकरकेतुराजातिहां कपूरतिलकाकंत दोइपुत्रउपरिथइ
वंत ८१ नामेंतेगुणसुंदरी रूपेंरंभसमान जाणांजसउपमनही चोंस
ठानिधांन ८२ रागरागिणीरूपसुर तालतंतवितांन

रकंरीइआठेकोन ८३ ज्ञानसुकृताषितकाव्यरस वीणानादवीनोद चतुरमिलेंजोचा
तुरनें तोउपजेंपरमोद ८४ नहेरोगाअतलैंगलइं षटकेंजेमकुकठ मूरषसिरसिगो
ष्ठी पाइरहियमेंहठ ८५ जोरूठोगुणवंतनें तोदेजेउपवास देवनदेजेएकतो साथ
गमारांगोठि ८६ रसीआसुंवासोनहीं तोरसीयाइकसाज कूरीनेंकंषरकइं जिम
वीछडीतरुमाल ८७ उक्तियुक्तिसमझेंनहीं सूकेंनहींजववोज इसतुसजोवेंजंगली
जोणइंआव्युरोज ८८ रोकतणंमनरीझवी नसकेंकोईसकजाण नदीमांहिनिसि
दिनवसें पहलेंनहीपाषांण ८९ मरमनजाणेंमांहिलो चितनहीएकठोर जिहां।
तिहांमाथुंघालतो फरेंढरायुंढोर ९० वलीचतुरांसुंबोलीइं चितइकदाइकवा
र तेसंहेलीसंसारमां अवरकाजअवतार ९१ रसीयानेंरसीयामिल्यें केलवतांमुण
गोठि हियेंनमाइंरीझिरस कहिणीनावेंहोठि ९२ परीष्यापाषेंपरणतां मंषमल
इंनरतार जाइंजमारोझूरतो किस्युंकरेंकिरतार ९३ तिणिकारणतेंकुंअरी क

आगटपोशिमचंक्रेरे च० सावंतकलनसामीउरेलाल ६२ विद्याधरउत्रीकहेरे सघलोत्तसी
वरततेरे च० विद्याधरमुनीवरकस्योहोलाल पापीसेठेनाषीठेरे सायरमांअमकंलरे च
वषसेंआजअपेलस्योहोलाल ६३ तेसंकणतांजवतेलष्योरे तवहरष्योमनिरायरे
च० उपसगीनगनीतणोहोलाल अविद्यावारीतकीधंरहेरे पणिआयुंसवि
थेरे च० भोजनमांहिंपीदस्युंहोलाल ६४ नरपतिश्वेकुंवनेंरे कहोएकिस्योविचार
रे च० तवतेबोलेंकांपतासेलाल सेठेंअमेविगोईआरे जोनेंसयापुवारेरे च० क
कपटरूपकेलव्युंहोलाल ६५ तवराजारीसेंचढयोरे बांधीअणाव्योसेठरे च० कुंव
तरुणवाधस्योहोलाल तवकुंअरआपेवलीरे बोधाव्योतेसेठरे च० उत्तमनरइमजा
णीइंहोलाल ६६ निमित्तीतेनबोलीउरे सांचपुरुनिमित्तरे च० एवकुमातगनो
णीहोलाल मातंगकहीइंहाथीयोरे तेहनंप्रकृतवणवित्तरे च एराजेसरराजीउहो
लाल ६७ निमित्तीयानेंनृपदीइरे दानअनेंवजर्धानरे च० विद्यानिधिजगपांवहो
लाल कुंअरजि रिआवीयारे करतानवपदध्यानरे मयणा वी

लीहोलाल ११ श्रवनीपरेंरे पालेंमनुनिधीतरे च पासेंरापेंसेठनेहोला
ल तेमनथीक्षमेंनहीरे दुरजननीकुलरीतिरे ५१ जेजेहवोतेतेहवोहोलाल २ ॥
बिकुंहाथफंडपन्यारे काजएकोनसिध्यारे चु० सेठई्सुमननिश्चिंतवेंहोलाल
पीनसकुंहोजीसकुंरे एहवोनिश्चयकीधरे ५१ एहनेंनिजहाथेंहणुंहोला
ल ७० कुंअरपाटणीठेजिहांरे सातमीभूंईअपारे च० लेईकटारीतिहांच
ढयोहोलाल पागलपैंठीहिवोपन्योरे आवीपोहतोमायरे च० मरीनरकेंगतसातमी
होलाल ७२ लोकअनोतेतिहांमिल्यारे बोलेंधिग्रवांणारे च० सामीद्रोहजोएथ
तेंहोलाल जेहकुंअरनीचीतव्युंरे आपलहुंनिरवाणारे च० उग्रपापउरतज
फलेंहोलाल ७२ मृतकारजतेहनांकरेंरे कुंअरमनधिरिसोगरे च गुंणतेहना
संभारतोहोलाल सावनघणुंदतपावीईरे अगनितणेंसंयोगरे च० तोहिंगुन
पालटेंहोलाल ७३ मालपांचसेंवाहणनोरे सवीसंभालीलीधरे च० लषमीकुंजे
धुंनहीहोलाल मित्रविणिजेसेवनोरे तेअधिकारीकीधरे ५१ गुंणनीधीउत्तमप

रे एककेंहेंनाणेजरे ४६ एवमादिनतुंमेकिसुंरह्याहोलाल एककाकोएकफूईथईरे
देयोंमंघणंहेजरे ४७ वाटिजोतौंतांताहरीहोलाल ५० मुंवकेंदेनररायनेरे अथम
कुलआधाररे ४८ रीसावीवाल्योहतोहोलाल उपदपसाइंजेजोथयोरे सविमाहोप
रिवाररे ४९ नागांडःखवियोगनोहोलाल ५१ राजामनचिंतिदसुंरे संगीतेहनीवा
तेरे ५० वालघणंविसरईथईहोलाल एकुटंवसविएहतुरे दीसेंपरतख्यसावरे ५१
थिपमुकवंत्रावलीटालीउंहोलाल ५२ निमीत्तीउतिमावीउरे भेंडफववनविसासेंरे ५३
पुचीदीधीएहनेंसोलाल किमनातंगकह्योकेंनहीरे तेंदीधेंगलेपासेरे ५४ निमीत्तीउं
वलस्यंकेंदेंसोलाल ५३ मुकनीमीत्तजलुंनहीरे संगजपोसाचीवातेरे ५५ एवकुमातं
गनोथगाहोलाल रायअरथसपफेंनहीरे कोप्योचितेंथौंतेरे ५६ उंअरनिमीत्तीयाउ
परेंहोलाल ५४ तेविंकुंनेंमारवारे रायेंकीधविचाररे ५७ फुनटघणातिहांसजकीया
होलाल मदनमंजरीसेसंगरे आवीतिहांतेवारेरे ५८ रायनेंदंणीपरेंवीनवेहोलाल

च.

५५ काजविचारीकीजीयेंरे जिमनहोयेंउपहासरे जेमॅगमांजसलहिइंघणोहोला
ल आचारेंकुलजांणीइंरे जोइयेंहियेंविमासरे च॰ रूवलकलानथाइयेंहोलाल ५६
कुंअरतेंनरपतिकहेंरे अगटकहोनिजवंशरे च॰ जिमसांसोपूरोटलेंहोलाल कहें
कुंअरकिमअब्वेरेंरे उत्तमनिजपरसंसरे च॰ कांमेंकुलउलषावस्युंहोलाल ५७
सन्यकुंमासंसजकरोरे मुझकरज्योंतरवाररे च॰ तवमुझकुलपरगटथस्येंहोला
ल मार्थमुंमावीपठेंरे पुठेंनष्पत्रवाररे च॰ एउषांणोसाचव्योहोलाल ५८ अथवा
प्रवहणमांहिवेंरे दोपरणीमुझनारिरे च॰ तेनीपुठीनेहनेंहोलाल तेकहिस्येंसवि
माहरोरे कुलथकीअधीकाररे च॰ इणीपरिंकीजेंपारखुंहोलाल ५९ तेहनेंतेनवा
मोकल्यारे रायेंनिजपरधांनरे च॰ तेजइनेंतिहांविनवेंहोलाल ६० तवमयणामनह
रषीयांरे पांमीआदरमांनरे च॰ सहीकंतेंबोलावीयोहोलाल ६१ बेसीरयणस्करवा
सेनेरे आव्यांरायहजूररे च॰ रूपतिमनहरष्योघणुंहोलाल नयणेंतेहनिहालतांरे

चरिजरोय ३५ वळतोगुरुतोजागवी धरिस्त्रोएषोनलीजोति परणावोदिजकुंअरी
नृपपुत्रीवात्तेनजाति ३६ सेहरूणतिजोपणं विसमांहिकरेंविचार एहनेंकष्टेपाम
वा जलंदेवाछंवार ३७ देईकलंककरूजातिनं पाकुंएहनीलाज राजाहणसेंएह
नें सहुजेसरस्येंकाज ३८ जोपिणजेजेमेंकस्यांएहनिंडवनांहेत तेतेसविनिःफलथ
या कळअविलाषसमेत ३९ तोपिणवाजिनआवीइं मनकरीयेंअनुकूल उद्यम
थीसविसंपजें उद्यमसकषतुंमूल ४० वयरीनेंवाधोघणं एमुकयणसेंकंद प्रथम
हणवाएहनें कोइकवारवोफंद ४१ इमचिंतवतोतेगयो उतारेंआवास पलकएक
तसजकनहीं मुखमुंकेंनीसास ४२ ढाल आपाढभूतअणगारनेंरे एदेशी इणि
वसरितिहांकुंवरूरे आव्युंटोलुंएकरे चतुरनर उभोजगमीकरेंहोलाल तेमीम
नरकुंवरनेंरे सेवकहेंअविवेकरे चतुर कामअमासंएककरोहोलाल ४३ एहजप
ईरायनोरे तेहनेंश्रेमकहोकुंवरे च० लोपसोवनतेंमआपस्यंहोलाल धाइनेंद्रुतो

लेरै सघलकंमलीर्क्रंटबरै च० श्रैपादघणोत्रमिमांनस्कंहोलाल ४४ मुंबर्कहेसा
णरे कारसांख्वमकामरे च० पुजेराहणारामांनज्याहीलाल वत्र केलनस्कंकमीवां
लेरे लेसुपरवपुदामरे च० स्पानासीदेज्यापवेंहीलाल ४५ मुंबमिलीसवितगाया
रे रायतगांदरबाररे च० गाइत्रसाघूमताहीलाल रागत्रालापेंटेकस्पुरे शीफियाराय
अपारेरे च० मांगाकांइपुरवइमकहेंहीलाल ४६ मुंबकहेंत्रमदीजीइरे मोहतव
धारीदांनरे च० माहतत्रमवानुघणंहीलाल तवनरपतिजंत्रस्कनेरे देवरानेत
श्रैरांवेंतेसेंपोनेरे टेहंतुमोहलवधारवाहीलाल ४७ पांनदेवाजवत्रा
ासरे हसतवदनजोतोहसीहीलाल वदाइनबलगांगेलग
पवत्राजसेट्यानलेंहीलाल ४८ एहवेत्रावीछुव
तेदट्ठोहीलाल वेंहनिथईनेंएकमलेरे श्र
लाल ४९ एककहेंफजमाजलो

थुंमोर ग्रिजनासमसंगा र जोरक्षमी रजोऽवोर नेनरयामक्रोमंर जी॰ १५ दूम
क्र॰ तीनकुसरीर नुनपनीयाउमाकाद्योर मयलदेवमंपरनच्योर पदानांनिजन्मा
कासीर जी॰ १६ नवनुनपानमंवटनोर वादमवाणांसाजेर व्हिंनामागीसर्वनी
र नाम्यानायमकायर जी॰ १७ प्रिवनिमकदेसेठनोर दीनीवरनयवानेर वो
र्धानेवचअधर्मयोर पाष्पानगोचानेर १८ जी॰ नेमाढम्बीनयोर कानीमुंकोसा
नेर परनकमीवरनोरनेर देवेप्रपदस्पाप्यानेर जी॰ १९ गतेद्वरवधानननुंरे
चिननम्राबुंडायर जदनेंकधूरदेनामीदुर नसमगोउर्गमनजायर जी॰ २० हिय
मानकरिनेंवमांनणोर म्प्रमनदुःखधरमेर जावेम्यानजीवनोर नामविकाजनकर
सिर २१ जी॰ जामुकनांमणवकुंर नियनगक्नविप्रमगनेर नाप्रिनमंपगकंदगोर
समभ्यंविरहनीजानेर जी॰ २२ इमलितीयामीपुंडर कहांनुक्नेमदामेर नेका
निजरकरि निरखीदर पानेमुकम्परदामेर जी॰ २३ इनीनेकानीपरीरे देइग
नोथान्कंलेरे नोहिं नजननात्यानहिर नुनीभुमानजेनेर जी॰ २४ नेमकरान:

मायबापनेंपरीहरीरे कीधोजेहनोसाथरे फिरहियडाफूटेंनहीरे विछन्योतेप्रा॥
णनाथरे जी० ९७ धवलमेवतिहांथ्यावीउरे रूदाकरेंविलापरे सूंकीजेएदेवने
रे दीजेंकीस्यासरापरे जी० ९८ उरवसयोंमांणसकस्योरे ऋूपसरसोजिमढोररे
अरजआपनसुंकीईरे काईहिवेंकठोररे जी ९९ मणीमातिकमालीपरेरे जे
हनागुणअभिरांमरे जिहांजास्येंतिहांलेहनोरे फगटहारसिरठांमरे जी० १००
विणवचनएहवुंसुणीरे मनिचिंतइएदोइरे एकर्मइलोकस्योरे अवरनवयरीको
यरे जी० धनरमणीनीलालचेरे कीधोसांमीद्रोहरे मांठुथईआवीमिलेरे पांजम
लेंफिरेंलोहरे जी० २ शीलहवि किमराषस्युंरे एकरस्येंउपघातरे करीकेत
तणीपरेरे सायरकंपावातरे जी० ३ समकालेंबिहुंजणीरे मनिधारीएवातरे
हणिअवसरतिहांउपेंछुरे अतिविसमोउतपातरे जी० ४ हालकहोलन्याथर
थयोरे वाजेउञ्झन्वायरे घोरधेरोघनाघनगाजीयोरे

जी० ५ कुआंथंभाकमककैरे उभीजाइसमदोररे हाथेंहाथसूंजेंनाहीरे थतेअंधा
संघोररे जी० ६ बीरबावन्नेमरवस्यारे हाथेंविविधहथीयाररे बमीदारदोमेंबम
रे थारस्वरूपनिहाररे जी० ७ बेठामृगपतिवाहनेरे चक्रनमानेंहाथरे चक्केसरी
पाउधारीयारे देवदेवीबहुसाथरे जी० ८ हरषोकुबुद्धिमित्रनेरे जिणवांकामति
दीधरे षेत्रपालेंतवतेउस्योरे रवंभरतनुकीधरे जी० ९ तेदेषीबीहनोघणेरे म
यणांसरणेपईठरे सेठपभ्रूपरेंधूजत्तो देवीचक्केसरीदीठरे जी० १० जोरेकंक्यो
जीवत्तोरे सत्तीसरणस्वपसायरे अंतेजाइसजीवथारे जोमनिधरीसअन्याय
रे जी० ११ मयणांनेंचक्केसरीरे बैनावेंधरीप्रेमरे वछनकोइचिंताकरोरे उप
पीजनेंबेषेमरे जी० १२ मासएकमांहिसहीरे तुमनेंमिलस्येंनेहरे राजरमणि
ऋद्धिपामस्वेरे नरपतिस्रसरागेहरे जी० १३ बेंजंनेंकंठेववेंरे फूलज्यमुलिकमा
लरे कहेंदेवीमहीमासुणोरे एहनोअतिहिरसालरे १४ जी० सीलजतनएहथी

७८ जीरेपदीयासाहरमांहिं एकजङ्खनीयामिनी जी जीरेजङ्गलुंतेबीजीरात
इणिपरिंवरणपाकामिनी जी ७९ जीरेनृपदीधाम्रावास तिहांरूपनरिलीलाक
रें जी जीरेमयणरेहासुंनेह दिनस्त्रधीकेरोकरें जी० ८० जीरेनृपथेवङ।
अधिकार नैयैत्तुंमरनवेवेतेहिं जी० जीरेथयोथगीधरम्राप पांनतणांबी
मांहिं जी० ८१ जीरेजेकोइस्रतिफंणवंत मांनदिंनृपजेहनें जी० जीरेते
हनेंबीमांपांन देवरावेतुंम्यरकनें जी० ८२ जीरेत्रीजेंथनेएह बीजोढाल
हामली जी जीरेसिद्धचक्रफणम्रेणि नविम्नंणज्योविनयेंनली जी० ८३
वाहणमांहिंजेजई हवेंम्नंणोंतेवात धवलनांमकालोहियें हरष्योमातेंथात
मनविंसेभुकनाम्पथी मोटीथईसमाधि १लकमांहिंविणठसदें विरुईगईविरा
८४ एश्वनदोइंसुंदरी एहसहेलीसाथ परमेसरमुकपाथरो दीक्षाहायोहाथ ८५
कूदीमायाकेलवी दोइंरीकहेनारि हाथलेइमनएहनो सफलकरुंअवतार

इषीयाभ्रइनेंतसहवें क्यणस्कोमलरीति ऋनुकरमेंवम्सिकाजीइ नहोइपरांणेडी
लि ८८ सूरतस्मवित्तमांधरी कंरेंअनेकविलाप मुषिंरूयेंहियमेंदसें पापवियोवि
आप ८७ ढाल वालिमरहोरहोरथिकेरवो एदेशी जीवजीवनप्रभुकिहांगयारे
अंाकणी घोदरिसणएकवाररे सफणसाहिबकेमुविनारे अमेनेंकुणआधाररे
जी० ५० सिरकुटेंपटिंटीगेरे मुंकेंमोटीपोकरे हाल छोलथयाघणेरे नेलाजग्ने
लोकरे जी० ५२ कौउकजोवानेंवस्यारे मांचेंवाहणनीकोररे हैदेवएसुंथमुंरे इं०
टाजूंनादोररे जी० ५२ जवबिकुंभयणांलणेरे कांनेपमीसेवालरे धुसकपन्योतव
धासकोरे जांणेवजुनिर्घातरे जी० ५३ थईअचेतधरणीढलीरे करतिकोडिविषा
सर सहीस्हेलीसविमलीरे नांषेंजोईनिसासरे जी० ५४ छांटपांवंदनकमकमारे क
स्यांवींजणेंवायरे चेतवल्युंसनकआरमेंरे हियमेंदुःखनमायरे जी० ५५ कांइंधांणपा
छावल्यारे मास्कोकिरतारे पाह्रीयांअलगांरसांरे मुंकीगयानरतारे जी० ५६

नावीउ जी० ६० जीकरोजोसी अमच्छ मदनमंजरी भणवती जी० जीरे तेह्नणे
नरतार कुंणथासेंनलेंनिपन्नी जी० ६१ जीरे किमपिलसेंअमतेह सेंअहिनांणे
जांणसुं जी जीरे कुंणदीवस कुंणमास घरिसेदीनें आंणसुं २ जी० ६२ जीरेस
कजकरोनेवात जोउमविद्याठेपरी जी० जीरेशास्त्रतणंपरिमांण अमचिंता
टालोपरी जी० ६३ जीरे जोसीकहेंनीमीत्त शास्त्रतणंप्रमाणवलें.जी जीरेपूरव
गतआम्नाय कुलतिपरिंनविचलें जी० ६४ जीरेमुद्दिदशापिवेशाय अटीवाहे २
रदिनअतिक्रमें जी० जीरेयुणायरवपकंठः जईजोये.तिणंसमें जी० ६५ जी
रेनवनंदनवनमांहिं अध्यनकीधेचोवातले जी जीरेजोज्योलसअहिनांण तसअ
रवयानविचलें जी० ६६ जीरेरायनमानीवात इंमकहेंएसुंकेवली जी जीरेंअ
पनेंमोकल्याचांहि आजवातलेसविपली जी० ६७ जीरेबकथाउअसवार अ
प्वरतनआगलिधस्यो जी जीरेकुंअरचाल्योतांम बजअसवारपरिवस्यो
६८ जिरेसिणगोंम्मेंगजेराजेजीरे आगलजईअसवार

जीरेमनमुरखआव्योराय साथेंनेइंदोलत्तघणी जी० ६९ जिरेसिणगास्यागजराज
अंबाडीअेवस्अडी जी जीरेघंटाघूघरमाल पापरमणिरयणेंजडी जी० ७० जिरे
सोवनजडीतपलांण तेजालातेजीघणा जी जीरेजोतरीयाकेकांण रथजोतेदिनक
रतणा जी० ७१ जीरेवरवेनाधरीसीस साहमीआवेंबालिका जी० जीरेमोत्तीसोव
नफूल वधावेंगंहणमालिका जी० ७२ जीरेराजवाहणचकडोल रयणेंजडखासण
पालषी जी जीरेसाबेलासेनड केउपताकानवलषी जी० ७३ जीरेवाजेंवजवा
जित्र नाचेंपात्रपगेंपगें जी जीरेसिणगास्याघरहाट पाटसावटुफगमगें जी० ७४
जीरेइंममोटेंमंडाण पेंसारोमन्होत्सवकरें जी जीरेरायसयलगंहणपांण अंब्बरजाय
धास्याघरें जी० ७५ जीरेजोसीतेड्याजांण लगनतेहिजदिनआवीउ जी जीरेदेई
वडदांदांन रायेंलगनवधावीउ जी० ७६ जीरेतेहजरयणीमांहिं कुंआमदनरेषा
स्तणीं जी० जीरेरायेंकस्योवीवाह साजनमनउलटघणो जी० ७७ जीरेगरथ
घणोनेंभार दीधोतवकरमेलणें जी० जीरेजस्येंमहिमादेषि सिद्धचक्रनेंनामणें जी०

कोनिशअनुसरे चंपकतरुअरनाहि ५२ सदालोकजागतो धरमबीजसमरथ ऊख
खीरख्याकेरे हरिकेरअगरह ५३ दावानलजलधरहोइ सर्पहोइफूलमाल पुन्यवत
प्राणिनदे थाशिअरूद्धिविशाल ५४ करेंकष्टोपायगवा लहेनकोडिउपाय पुन्यवंतने
तेसवे शुधनांकारणथाय ५५ थलथाएजलनिधीबिचें नगरहोनिमोथाय विष
अमृतथईपरगमे पुरवपुन्यपसाय ५६ ढाल रागमधमादन जिनवाहरीवांणीअ
मीयरसालसकणतांमझसातावाली जीरेजी जीरेमारेजाण्योऊंअरजोम तवदेवे
दोलतमिली जीरेजी जीरेसजनहनलासेबहु करेंबीनतीमनरली जीरेजी ५७
जीरेसांमीअरजअमारीएक अवधारोआदरकरी जीo जीरेन्यरीगणनाम वसें
जिसीअलकापुरी ५८ जीरे० जीरेतिहांराजावसुपाल राजकरेंनरराजीउ
जीo जीरेसोंकणदेवानरिंद जसमहिमाजगगाजीउ जीरे० ५९ जीरेएकदि
नसेनाप्रकार निमीतीउएकआवीउ जीo जीरेअसनसुखवाहेत

जेवाहणनीकोरेंमांचेंबांधीयारे मां० दोरडाणेंअवलंबेंउपरिसांधीयारे उ० तिहांबेसी
नेंसीवडेतेकुंअरनेंकहेंरे कुं० दयीअवरीजणहकेंमुक्यमनगहगहेंरे मु० ४८ मग
रणकमुपआठकेंदिसेंजूजूआरे दि० एहवारूपसरूपनहोसेंनजूआरे जोवा
रंगोसादिंबहोआवोवहीरे आ० पवेंकाढस्यावांकजेकोरकहूंनहीरे कं कुं
य रमांवेंतोमपवडयोउतावलोरे च० उतरीउत्तवंसेवधरीमनआमलोरे ४० चिडं
पासेंविडुंमित्रेंतेदोरजकापीयारे दो० करताएहवांकर्मनबीहेंपापीयारे न०
४९ पमतांसागरमांहिंनवयदमनधरेंरे न० सिद्धचक्रपरतव्यकेंसुविंसविसंक
टहरेरे स मगरमछनिमुखविवेगथिरथइरे वे० वाहणनीपरेंतेहकिंमुहसोत
टजइरे मु० ५० उषधीनेंमहीमाइंजलनयनिसत्तरेरे ज० सिद्धचक्रनावेंस्तुर
सानिधकरेरे श्रु० त्रीजेखंडेंढालएपहिलीमनधरोरे प० विनयकहेंनविलोक
कंभवसायरतरोरे न० ५१ दूहा कुंकरकांठेंउत्तस्यो उजडताएकवनमांहिं श्र

नहीआपणंरे ४० ७५ उरकानमावेंअन्नआवेंनाइमीरे उलसवालसथाइकेंजकन
दीएकघमीरे ज० मरिवपुंकेंमिसासकेंदिनरहूबलोरे दि० रातिदिवसनविजायकेंम
नवजआंमलोरे म० ७८ आरमिल्पात्तसमित्रकेंशखेंअमसुरे ७० कूंणथयोउम्हरो।
गकेंकरोएमसुरे क० केचिंताउत्तपन्नकेंकोरुकआकरीरे को माईथाउधारकेंमनका
तुंकरीरे म० ७७ डःखकहोम्मसासकेंउपायविचारीयेंरे उ० चिंतासाहरएककेपार
उतारीयेंरे पा० लजापुंकासेवकहेंरमचिंतवुंरे क० तवम्यारेंकहेंखिमिचकेंधिमएसुं
लवुंरे थि० ७८ परनारिनेंपापेंनवोनविलुमीइरे भ० किमसकरतसनी मालकूहांमेंफ
मीइं म० परउपगारिएहजिस्पोजाणकेवमीरे जि० दीठोपरतष्पजासकेंमहिमाएवदि
रे म० वोनाच्यादोइवारइतिउमजीवसारे इ० उारीयाधनमेलजोपासेंरएहसारे पा०
तास्यांथंम्यांवाहणइति आगलिरहीरे इ० एहवोपुरुषरतनकेंजगवीजोनहीरे ज०
८० करिएहस्युंडोहजोविरुउंताकस्योरे वि
रे अं० मागेंलाघिरूढीएणिजोएवमीरे ऐ०

त्रीणिमीत्रहीतसीषत्तेइमदेइगयारे सी० चोथोकहेंस्फलि सेव्केंएवयरीथयारे ए०
गणीइंपापनेंपुन्यकेंलषमीजोनीइंरे ल० लषमीहोइगांवत्तोपापविलोमीइंरे पा० ४५
अपराजीइणिऋद्धितेकाजेंताहरेंरे का धणीथाइंभाग्यवंतकमाइकोइकरेंरे क कर
संपुरस्पोउपायकेंएदोंलत्तघणीरे ए० अनेंसुंदरीदायकेंथासेंनेंमतणीरे था० ४४
जिमपामेंविश्वासमिलोतिमएहस्युंरे मि० मुषिमीवीकरोवातकेंजाणोनेहस्युंरे
जो० मीवीलागीवातत्तेसेवनेंमनिवसीरे स० आव्योफीटणकालकेंमतित्तेहनी
षसीरे म० ४५ हूधजदेषेंफागनदेषेंमांकमोरे न० मस्तकलागेंचोटथाइंत्तवरांकम
रे था० रोगीकरेंकुपथ्यतेजोगेंपीवमुरे जा वेदनव्यापेंजामतेथाइंअनिष्ठमुरे था०
४६ वेसिंकुंअरपासिकिंविनयघणोकरेंरे वि तेपकजीअवधारिकेंमरवइमउव
रेंरे मु० पूरवपून्येंपसायतेंमसेवाफिलीरे तू० पगरतेमहपसायकेंअमआस्याफलीरे
अ० ४७ जोतांनूमुखचंदकेंसविपुण्यलेषीइरे स० एमतुमारीवातकेंविसहंतेसीइ
कुंअरसघलीवातत्तेसाचीसदहेरे सा० दुरजननीगतिमातितेसजननविलहेरे स०

[illegible] कोनिनप्रमत्त [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

धद्वितीयःखंडः संपूर्णम् २ ॥ उँनमः ॥ दूहा ॥ सिद्धचक्रनागुणघणा कहेतांनावेपार ॥ वं
छितपूरेंदुखहरे वंदुंवारोवार २६ सनाकहेंश्रीपालनें समुद्रउतारोपार ॥ अमनें
उतकंठाघणी सुणवासकरोंवार २७ कहेंकविअणआगलिकथा मीठीअमी
असमान निंदाविकथापरिहरी सुणज्योदईकांन २८ धवलसेठकरेंघणुंदेषीश्री
अरऋद्धि एकलमोआव्योहतो हेहेदेवसुंकीध २९ जेकिरतारेंवनाकीया तेसुं
केहोंसिरा देवसंपद्यागिरिवाहनतो उंजरपामेंचीस ३० वाहणअढीसेंमाहरां लीधांसि
रमेंदेइ जोतेघरिंकिमजाइंस्यें ऋद्धिएवडिलेइ ३१ एकजीवबइएहेनें नांखुंजलधीम
झार पछेंसयलएमाहरुं रमणीऋद्धिपरिवार ३२ देषिनसकेंपारकी ऋद्धिहीयेंजस
षार सायरथाइंदूबलो गाजेंतेंजलधार ३३ वरसालेंवनरायनो सविनवपल्लवथाय
जाइजवासानुंकिसुं जेजाइसुकाय ३४ ढाल ३ ॥ जलजरतरुअरबोरकोंबोरवालंजनीरे
बां० एदेश्री देषीकामिनीदोइकेंकामव्यापीयोरे कां० वलीघणोलोभेंधनलोभकेवा
ध्योपापीजेंरे बां० लागादोइपीआवकेंपीठेंअतीघणुंरे पी० धवलसेठकेंचित्तकेंवसि

[illegible]जी २८ [illegible] । [illegible]

[illegible] नदी[illegible]मारी[illegible]जी [illegible]

[illegible] [illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible] नी [illegible] । [illegible]

[illegible]जी २० [illegible] । [illegible]

[illegible] जी २१ [illegible] नि[illegible]

[illegible] जी २४ [illegible]

[illegible] नी २३ [illegible]

[illegible] जी [illegible] नी [illegible]

[illegible] जी [illegible] नी [illegible]

[illegible]

इगीत निजपषेंआपापणेंजी ७५ करीआगन्यनीसाष । मंगलच्यारिंवरत्तीयांजी
फेरीफरतांताम दंननरिंदेंबजदीयांजी ७६ केजवीउकंसार सत्समफगंधोम
हमेंहेंजी कवलग्रवेफपमांहिं मोहोमांहिंमनगहगहेंजी ७७ मदनमंजूषानारि
अमेंयरणीइणिपरेंजी निजनारीस्यंभोग रूपविलसेंसुसराघरेंजी ७८ रूषभ
देवपासाद अंत्सवपूजानितकरेंजी गीतगपांनबजदांन वितयएतिहांवावरइ।
जी ७९ चैत्रमासेंउपवास ओबिलउलीआदरेंजी सिद्धचक्रनीसार नाषीणी
पूजाकरेंजी ८० नरतावीअमारि कुंयररायवेंवामलीजी नृत्यकरांवेंसार जि।
नवरस्यागलिमनरुलिजी ८१ इणिअवसरकोटवाल आवीअरजकरेंरसीजी
दोणचोरीइंचोर पकड्योलसआडाकसीजी २ वलीनागीउमझाणि बलबंधलक
पणिआदस्युंजी अमेंदषाप्याहाथ नवमोहकुंअंपुंकस्युंजी ३ राजाबोलेंताम देंम
चोरनोदीजीइंजी जिणहरमोएवात कहेंकुंअरकिमकीजीइंजी ४ नजरेंकरीहजूर
पहिलांकीजेंपारखुंजी पछेंदीजेंदंड सजनेंहोयेंसारिखुंजी ५ ओणोजसइंहजर

पखिचितरी सोवनमालिकथेन फूलमालअतिफूटरी महकेंसबलमकरंन ८५ ढाल
रागवंनाइती श्रीआदीसरदेव अजवेसरअवधारीयइंजी एदेशी हवेंश्रीपालकुंमा
र विधिपूर्वकमज्जनकरेजी पहिरेंसविसिणगार तिलकनिलाडेंसोहांधरेंजी ८६
सिरपूंणलोंपूंप मणिमोतीमाणिकजम्योजी हसेंनहीराहेज जाणेहुनूपसिरवडप
जी ८७ कांनेंकुंमलदोइ हारहीयेंमोहेंनवलखाजी जम्याकंदोरेंरत्तन बांहिंबाजबं
धबहिरखाजी ८८ सोवनबेरीवेढ दसेंआंगलीइंसोहीइंजी ऋषतंबोलसुरंग नरत
रीमनमोहियेंजी ८९ करधरीश्रीफलपांन वरघोडेंसविसेंचरयाजी साबेलाश्रीकार
सहसगमेतवयरवस्याजी ९० वाजेढोलनीसांण सरणाइकंगलघणीजी रथबेठीसें
वद गाइंमंगलजांनणीजी ९१ सावसोनेरीसाज हयवरहिंसेनाचताजी सिरसिंदुरसो
हेंत दीसेंमयगलमाचताजी ९२ चोसटेंलोक चहुंपसोसवनवनवेंजी इंमयोटेंमंग
ल मोहनआव्यामांनवेंजी ९३ पुंबीआंणपामांहिं सासरुंउलटघणेंजी आंतिवांरी
मांहिं हरषघणोकंन्यातणेंजी ९४ करमेलावोकीध वेदपाठबांभणभणेंजी सोहगमा

तनाथईतेवेंफरवेंजी वंदेंसजलसपायरे ७४ ॐ॰ ढालसंकणीइमसांभ
जानीएहरे विनयकहेंसिद्धचक्रनीजा नगतिकेरोगफणीगेहरे ७५ ॐ॰ हहा वेवाजे
णहरबारणें पुष्पधनपसजकोय ॐयरनिरधीरायतु हिमकुदरपित्तहोय ७६ धनि
रसहेंसरकल्पतरु धनवंछेसरिहेवि जासपसाइमुकफल्या मनवंछिततवेव तिल
कवधावेंॐस्मरने देश्रीफलपान सजनसाषिप्रेमेंकरी दीधंकन्यादान ७७ श्रीफ
लकोफलसयणाने देईघणातंबोल तिलककरीनेंबांटणों कीधांकेसरघोल ७८
निजघरेंॐयरगया मंदिरपोहतोराय विंजपासेंविवाहना घणामहोत्सवथाय ७९
वधावधारणांघेवधां वापदघणातलाय केलवीपकवानबज्जे गाजनधवलगवाय
८० वागासवेंनवनवा हरजीवेंगाबार जदीयामणिमाणिकजडे घाटघडेसोनार ८१
गयेंमदाखोमादवा सोवनमणिमयथंभ थंभरमणीपूतली करतीनाटारंभ ८२ प
[illegible]बारणें नीलरयणमयपान जमेंमोतीजूमखा जांणेसरगविमान ८३ चौरीविंज
[illegible]दाम पांडुतारामंडलें श्रावीकायोविसराम ८४

णीजी देषणआवीजांम मनमोहनप्रकटेमतणजी हरिसणदीठुंतांम ४७ अ०
जोणंदेवीचक्केसरीजी उम्हेआएपाअम्हवास जिणदरबारउघाडतांजी फला
संसकुनीआस ४८ अ० पूजपधारोदेहरेंजी कहारोश्रीजगदीस उघडस्येतेंवा
रणांजी जाणंविसवाविस ४९ अ० बीजेवंदेंरणपरेंजी कणतांढवीढाल वि
नयकरेंश्रीलाघरेंजी होज्योमंगलमाल ५० अ० रूहा तवहरषेकुंअरनेणे थवल
सेठनेंतेडि जइयेंदेवजुहारवा आवोडरमतिफेडि ५१ जिसेंवकरेंजिनवरनमो
नवरात्रेमनिचिंत विणउपराजइजेहनी उहवेंमनतीपंति ५२ अमनेंजिमताने २
नहि धनीएकपरवार सीरामणवालूजिमण करीइंएकजवार ५३ तवकुंअर
जावातिहां जवथाइंअसवार हरष्योदियारवकरें तेजीनांमउपार ५४ साथलें
ईजिणदासनें अवरअवलपरिवार अनुक्रमेंकुंअरआवीया ऋषभदेवदरबा
र ५५ एकेकोआवीजई सडगनारापास कुंअरपवेंपधारस्यें हमबोलें अास
५६ जिमनिरणयकरिजाणीयें बारउघाडणहार गनारेंआ स

लोजी दोसनहीउकरए दोसरहांबरमादरोजी आणीरूपरिनेह ३७ ५० वरनीचिंताचिंतवीजी जिणहरमांहिंजेण नेलागीआसातनाजीवारदेवाणांतेण ३८ ५० जिनवरतोरूसेनहीजी वीतरागरूप्रसिद्ध पणिकोइकअधिष्टायकें जी एपुजसिष्यादीध ३९ ५० एकमासविणउघमेंजी जावुंनहीआवास सपरिवारनूंपेतिहांजी थिणिहूयाउपवास ४० ५० त्रीजेंदिननिसिपाछलीजी वाणीहुईआकाश दोसनथीरहांकोयनोजी कोइकरोरेविपास ४१ ५० जेहनीनजरें देवतोजी उघडस्येएबार मदनमंजूषातणोथस्येजी तेहिजनरभरतार ४२ ५० रूषभदेवनीकिंकरीजी चक्केसरीदेवी एकमासमांहिंहवेंजी आवुवरनेलो वि ४३ ५० सुणीतेहरष्यासहुजी रायनेअतिआणंद प्रेमेंकीधांपारणांजी हरिगयाद्दुखदंद ४४ ५० दिनगणतांतेमासमांजी जोजोबेदिनएक तिणेंसमुद्र इंवाटमांजी विकलपकरेंअनेक ४५ ५० पुत्रसेठजिनदेवनोजी उश्रावकजिनदास प्रवहणआव्योसांजलीजी आव्योरहांउल्लास ४६ ५० सुणीनादनाटक

भत्तिचेंग कनकपत्रकरीकोरणीजी विविध रत्नसफरंग २८ भ० आव्योराय
कहारवाजी देषीसकलाविज्ञान मनचिंतेधनफकस्यांजी चोसठिकलानिधा
। २९ भ० एसरिषोजोवरमिलेंजी तोफजमनछुबंथाय साचीसोवनमंद्री
लीजी कावतिहांनजनाय ३० भ० इंमजओसंनोमनेंजी चिंतावरनृपदोय इ
तोअवसरअवरिजयइंजी तेसंणज्योसत्कोय ३१ भ० ओसरतिपाठेंपो
। जिनमकवज्योतिसार आवीनजाराबाहरेजी जवत्तेराजकुंमारि ३२ भ० तांम
झारात्तेहनाजी देवाणांदोयबार हल्पाव्याहालेंनहीजी सलकेंनहीलगार ३३
भ० राजकुंयरदुमचिंतवेंजी मनआणीविषवाद मेंकीधीआसातनाजी कोइ
धरीप्रमाद ३४ भ० षिगमफकजिनजोवामेंतणोजी अपनोएअंतराय दोषसयल
कसोसहोजी सामीकरिफपसाय ३५ भ० दादादरिसणदिजीयेंजी एहधर्दे
पमीय बोरुनेंकबोरूआंजी माचितकरिफपसाय ३६ भ०

कपूरिंथयें कुंअरसूबेंरास कुंणकारणकुंणगामथी पधास्याअमपास २० ढा
ल ऊंकरीयाफ्तनिवरधनधनजूमअवतारि ए देशी तेपुरुषहवेंवीनवेंजी रत्नद्वी
पसफरंग रत्नसानकपरवतइहांजी वलयाकारउत्तंग २१ अरूविस्तरीनेंअवधार
रोफक्रवात चांकणी रत्नसंचयातिहांवसेंजी नयरीपर्वतमांहि कनककेतुरा
जातिहांजी विद्याधरनरनाह २२ प० रत्नजिसीरलीयामणीजी रत्नमालातस
नारि सकरसुंदरीसोहामणीजी नंदनबेंजसच्यार २३ प० तेउपरएककईछेतांजी
पुत्रीजईगुंणधाम रूपकलारतिआगलीजी मदनमंजूषानाम २४ प० पर्वता
शिखरसोहामणोंजी तिहांएकवेंप्रासाद राइंपिताइंकरावीयोजी मेरुस्यंमंडेंवा
द २५ प० सोवनमयसोहामणोजी तिहांरिसहेसरदेव कनककेतुराजातिहांजी
अहनिसिसारेंसेव २६ प० नगतिंजलीपूजाकरेंजी राजकुंअरित्रिणिकाल अगर
कपूंवेंगफणस्तवेंजी गाइंगीतरसाल २७ प० इकदिनजिनआंगीरचीजी कुंअरीइं

रयणदीवंपेमेसकुरे नांगरजलमेज्यांरे सहदोससंकेल्यांरे दलहलजोक संवेतिहां
उतस्यांरे १० बीजेंअपेमेरे जतेपून्पअपंमेरे एकलेंयीमेंउपराजणकारीरे अंथ
रश्रीपालेरे जहाजेगारसालेरे पांचमीढालऽसीविनयेंकहीरे ११ दूहा• दाणवण २
वीवस्तनो नरीअनेकअपार आपारीवापारना उद्यमकरेंअपार १२ लालकीना
यतजरकसी चंदरूआचोसाल जेवातहूतांणीया पंचरंगपटसाल १३ सोवनपट
मंडपतलें• रयणहीमेजेंपाट तिहांबिंचाकुंअरजई रसनरिनवरसनाट १४
धवलसेवआवीकहें वस्तमूलवक्त्याज तेवेचावोकांनही भस्यांअहीसे
जिहाज १५ कुंअरमणेंसेवनें • धनोवस्तनोदांम अवरवस्तविणजोवली
करोअमासुंकाम १६ कोमलवाकुंअमनलें हरखेउठकिराट आरतिधा
नेंजिमपम्यो वामीहृदयविलाद १७ इणिअवसरआव्योतिहां अवलवपअ
सवार स्रगणस्वरूपसवेपजस आपसमोपरिवार १८ कुंअरतेमोआदरें
बेंसारीनिजपास अदभूतनाटकदेषतां तेपाम्योउल्लास १० हवेंनाटि

मूइंसातमीइरे तीहांचढीवीसमीइंरे बेसीनेंरमीइंसोवनसोगठेंरे वजावंदेंबाजेंरे
वाजांघणांवाजेंरे वाहलाणातिरहितंसमकइमांरे ३ पूरेंतेरत्नेंरे राजावजजत्नेंरे
सासरवासोमनमोटेंकरेंरे बोलावीबेटीरे हियडानारिनेटिरे शिष्यामणपेटीदाइंबा
ऊपरिंरे ४ साजनसोहाव्यारे विलणांवजलाव्यारे कोठेंसविच्याव्यात्रांसमपानतारे
वरवऊवोलाव्यारे मावित्रदुषपाव्यारे त्ररवजनाव्याहवेंवयांगलनारे ५ नांगरऊ
पनाव्यारे सदेक्षरवढाव्यारे वाहलावलाव्यावेगीबलासीइरे नित्यनाटकथाइरे
गंणीजनगंणगाइंरे करवऊविकंसदावेंगीवमंरे ६ मनिचिंतेसेवरे मंकीधीवेठ
रे सायरठेगफल्योजूठ्रणहनेंरे जषानीहाथेंरे आव्योमकऊसाथेंरे आजेत्याथेंस
शरणथयोरे ७ जजइंघणमाटेंरे आव्याइणवाटेंरे परण्योरणसाटेंजऊसंदरीरे ।
लषिमीमकऊआधीरे लाभिमहियांलाधीरे दोलतवाधीदेषोपलमांरे ८ किममांगंत्रा
मुंरे षतपत्रदेषामुंरे देस्येंकेंआकुंअवलुंबोलस्यंरे ऊंयरत्तेजांणीरे मयमीठीवाणीरे
नाकुंतसच्चांणीआपेंदसगंणंरे ए पाम्याअकंकरमेंरे नस्नवजिनधरमेंरे वाहल

णवेशगरेरे ९५ महोत्सवमंमावेरे साजनसहुआवेरे धवलगवरावें मालनर
वस्त्रेरे रूपेंजिसिमंनारे झणपारनजेहनारे मदनसेनापरणावीइ लिपरेरे ९६ मणि
माणिककोमिरे हयगयरथजोमिरे नरपतिकरजोमिरेंकरमोचणेरे परिरपहिरावें
रे मणिभूषणआवेरे पारनआवेंजसमंणबोलतारे ९७ नाटिकनवदीधांरे जि
हांपाचप्रसीधरे जालंणमालिंलीधांसघोथी वज्रदामीदासेरे सेवकसज्जविलास
रे दीधांतत्रासेसेवाकारणइरे ९८ रमनरदिनकेतारे इहांरहेसरखवेत्तारे दांनय
चकनेंदेतावज्रपरेरे अपनेंवोलावेरे हवेंवारनजावेरे कहेकंथरआमजावुदेसे
तेरे ९९ नृपमनिहुपआणेरे किमराखुंजाणेरे घरहमजोणनवसेथाकुणेरे पुचाडे
जाइरे तेनदीपराइरे करेंमजाइहवेवोलाववारे ४०० एकजंगअलवेरे जेदपीआ
खेंनरे चोसदिकआथनेंसोहरे कारीगरघनीयारे मणिमाणिकजडियारे थंम
तेअमीयाजईगयणांगणेरे ४०१ सोवनचित्रांमरे चित्रितअभिरांमरे देपीइंवामरतिहे
गोंषदारे धजनेजाकलवेंरे मणितोरणचलकेरे चंचलढलकेंचामरचित्त्हदिसिरे ४०२

हैनररायनै दाषिणकिमवंमाय तितिनयरीजोवानणी कुंयरैंकीयोपसाय
९९ हाटसज्योंहीरागलैं घररतोरणमाल चोहटेंरचोकमां नाटकगीतरसाल
१०० फूलबिगस्योंफूटरां पंथकरीछटकाव गजतुरंगसिणगारीया सोवनरूपैं
साव ॥१०१॥ ढाल रागसिंधुडो चित्रोडाराजारे एदेशी वीनतीअवधारैंरे कुरमांहिं
पधारैरे मोहत्तवधारैनबबररायनुंरे कुंयरवमनागारे देषीसोभागरे जोवारठिला
गीयगरलोकनैरे ए२ घरिनेमीआव्यारे साजनमननाव्यारे सोवनमंमाव्याआस
नवेसणारे मीठाईमेवारे पकवानकलेवारे नगतिसेवाकरेंबबरबकुयरेरे ए२
भोजनघृतघोलरे उपरेंतबोलरे केसररंगरोलकरेंबकुबगटणारे सविसाज
नसाथेरे मषेमषरूमाथेरे अंतरनराषैकोइषेमभारे ए३ दिंईकंन्यादानरे देइ
बहुमानरे परणीअमवानवधारोवंशनोरे तवकुंयरमाथेरे कुलजाएप्यापाषे
रे इमकिमचित्तसाथेदिजेंटीकारीरे ए४ कहेंनपअवत्तेसरे बंनोनहीइंसरे
जाएयोतुमउत्तमवंशजणेकरीरे जोणेसक्तकोइरे जेनजरेंजोइरे हीरानविसोवेंवि

णवस्त्रपहिरांमली जीहोकरेंघणंसतकार ७४ रू० जीहोरूनटजीकेनागाहत २
जीहोतेत्याव्यासरूस्कोर जीहोमांजेतसच्याजीवका जीहोकोपकरेंसेवसोइ
७५ रू० जीहोऊंयरेंतेमवीरापीया जीहोदीक्षितेहनीहति जीहोवाहणऋटी
संमाहरं जीहोसाचवथ्याएकचित ७६ रू० जीहोजेगुणबब्बररायनो जीहोनाको
थयोपरीवार जीहोऊंचरतेमतिहने जीहोआहरदीइंअपार ७७ रू० जीहोचो
थीढालइंणिपरें जीहोबाजेपदेंहोय जीहोविनयकहेंपालउन्पनो जीहोपुन्पकरो
सजकोय ७८ रू० दूहा: महाकालश्रीपालकं देषीरूजबलतेज विस्नचमक्यो
रूमवीनवें हियअमेंआणीहेज ७९ रूरुमंदिरपावनकरो मदिंरकरीमहाराज अग
टयोपूरवनविकस्यो पुन्यअमारोआज ८० नृपसरिषाकपूरिसतणो अमनेदषि
सणहूलंनजिपमसुधरनाजोकमें सरतसऊरूमरूरंल ८१ बोलावाविणएक
जो चालीनसकेंदीन थवलसेठतवविनवें इणिवरिंथईअधीन ८२ अरूरंमा
निवंठेंसरू देषीधूम्पपकुर पणिविलंबथाइंघणो रत्ननदीपवेंदूर ८३ ऊंअरक

रूपनिधांन ६९ स्त० जीहो उंसंदरसोहामणो जीहो दीसें जोवनवेस जीहो विणषूटें
मरवामणी जीहो कांइंकारें तुदेस ७० स्त० जीहो कहें कुंयर संग्राममां जीहो वचन
कीस्यो व्यापार जीहो योधें योध मिल्या जिहां जीहो तिहां शस्त्रे विवहार ७१ स्त० जी
हो महाकाल कोप्यो तिहां जीहो हलकारें निजसेन जीहो फंकिं शस्त्रफेनो फमिं जी
हो रातो रातो रोसरसेन ७२ स्त० जीहो बुंवाती घातीरना जीहो गोलाना षेंलाष जी
हो पणि अंगें कुंयर तणो जीहो नापीनहीं सराष ७३ स्त० जीहो आकरषी जे जेहवी
सें जीहो उंअरनां षेवांण जीहो समकालें दसवीसना जीहो तिहां बेमावेंओण
७४ स्त० जीहो सैन्यसयल महाकालनुं जीहो नागी गयुं दहवट जीहो रूपपणा
कीउंयरें जीहो बांध्यो बंधनिघट ७५ स्त० जीहो बांधीनें निजसाथनें जीहो पासें
आण्यो जांम जीहो बंधनबोध्या सेठना जीहो रष्यकना गातांम ७६ स्त० जीहो षभ
गालेई महाकालनें जीहो मारणधाइं सेठ जीहो कहें कुंयर बेंसी रहो जीहो बलदी
ठुंतमनेठ ७७ स्त० जीहो बंधनबब्बररायना जीहो ओनाव्यां तिणिवार जीहो रूप

जीहोपावोवजीउराय जीहोतबबोलावेंसेठनें जीहोकंपरकरीयपसाय ६२ स०
जीहोस्फनटसेवेउमकिंहांगया जीहोबांधावांहमरोम जीहोएवकुंडपनदेवता जी
होजोदेताफजकोदि ६२ स० जीहोसेवकदेंउपेकांदोउ जीहोदाक्षउपरलूंण जी
होयम्यापडीवाटुकीसी जीहोदएयंपूच्छानेंऊण ६२ स० जीहोकदेंऊंयरवयरी
यसो जीहोजोवाळुंएविंत जीहोतामुफनेंदेसोकीसुं जीहोनावोथिरकरीचित्त
६४ स० जीहोसेवकदेंउंसाहिबा जीहोएकमुफकारिजसाधि जिहोविंद्वीवा
हणपांवसें जीहोलस्फंच्याधीत्राधि ६५ स० जीहोवोलबंधसायीतणो जीहोउं
यरपामीतंत जीहोधकपतीरतरकसयही जीहोचाज्योतिजअनंत ६६ स० जीहे २
जड्वक्षरबोलावीयो जीहोवलिपाम्रोवदवीर जीहोत्रास्त्रीरातवलतणं जीहोन २
दउतासंनीर ६७ स० जीहोतुफसरियोजीपाजलो जीहोपुद्दलोअन्द्यरिञाए
जीहोस्फपदलीफफहाथनी जीहोवाधाविणकिमजाय ६८ स०
जीहोदीगेएकफवांन

जी हो जलमां करें कल्लोल जी हो मां हो मां हिंफकत्ता जी हो उछाले कल्लोल ५२ स्रू
० जी हो मगरमछ मोटा फिरें जी हो स्मरमार केई कोडि जी हो नचें ऋक्र करी संघणा
जी हो करत्ता हो मदहोन ५३ स्रू० जी हो आज पवन अनुकूल जी हो जलें धणजोजोड
इं जी हो आवुं बब्बरकूल ५४ स्रू० जी हो तसबंदिर मां कत्तरी जी हो जलइं धणल्पें
लोक जी हो धवलसेवकोवेंरत्या जी हो साथें स्रूनटनाथोक ५५ स्रू० जी हो को
लाहलतें सांनली जी हो आव्या अत्ती सयराण जी हो दाणीवब्बररायना जी हो मा
गें बंदिर दाण ५६ स्रू० जी हो सेव स्रूनटन इंगारवें जी हो दांणनचेंच्यवूक जी हो त
वतिहां लागुं तेहनें जी हो मां हों ऊूक ५७ स्रू० जी हो सेठ तणां स्रूनटें हणा जी हो दें २
णीना वाजाय जी हो सेनसबलतवसजकरी जी हो आव्यो बब्बरराय ५८ स्रू० जी हो
राजतेजनसक्या सही जी हो दीधी स्रूनटें उंवि जी हो मारपमीतसनासतां जी हो वां
णजरि रकुंठि ५९ स्रू० जी हो वांध्ये कालीजीवतां जी हो संपसरीधोसेव जी हो वां
हिं विंकं वाकरी जी हो मस्तककीधं हेव ६० स्रू० जी हो रपवा लाझं कीतिहां ।

१तस देरलागीपाय करजोडीनेंवीनवें वातसुणोएकनाथ ४२ वरसघरेंएकए
कनें सहसदेजंदीनार सेवासारेंसहसहस जोधनवाकूकार ४३ उमनेंफंरहमागें
दिजे नृपेच्याबोच्यमसाथ एच्यवधारोवीनती च्यमनेंकरोसनाथ ४४ कुंयरकहें
हुएकलो लेवूंसर्वलुंमोल एसर्वेंतुएकलो कारजकरूच्यमोल ४५ तेधनतेंलेवुं
करनेंदि सेवकरहेंकरजोडि च्यमवाणिकजनएकनें किमदेवराईकोडि ४६ कुंयर
कहेंसेवकथई दीमनकालूंहाथ पछिदेशांतरदेषवा हुंच्यावूंतुमसाथ ४७
तातुंलेईवाहणमां छोकरूजेसणवाम प्रासपतेंदिनारसत वीजातुंपरषुतेंाम
४८ ढाल रागमल्हार जीहोजाणेंच्यवधवजंजनें एदेशी जीहोकुंच्यरबेठो
गोषमें जीहोमोटावाहणों जीहोविस्तृदिसिजलछिल्लरंगमीं जीहोजोवेंकोतकतं २
ह ४७ सागुणनरपेषोतुन्यपजाव च्यांकणी जीहोपुन्येंमनवंछितमलें जीहोह
रटलेंदुषदंदं ५० सु० जीहोसठहोंकास्यासामटा जीहोपूस्योघणेपवलेण जीहो
वहवेंथंवाहणवेमें जीहोजोयणजाइंषणेण ५१ सु० जीहोजलहस्तीयवतिजिस्य २
देवें

बेवारे ३१ ध० केस्किहेंकायरुअम्हे केहकहेंकोयेंरअमेरांकरे केहकादेंमारोरषे.
नथीअमारोवांकरे ३२ ध० केहकहेंपेटारथी असरणअमेअनाथरे फरसेंदिई
दसअंगफली घेवलीआमाहाथरे ३३ ध० धवलसवलेदेषज्ञो आवीलागोपायरे
देवसरुपीकोतुमे करोअमनेंरूपसायरे ३४ ध० महिमानिधिमोटातुमे उमबल
सकतिअगाधरे अविनयकीधअजांणेंर्ं तेषमज्योअपराधरे ३५ ध० अवधारो ला
अमवीनती करोएकउपगाररे थंभणावाहणतारवो उतारोभवपाररे ३६ ध० के
अरीरेंकदेंएकोमनुं स्फूटदेस्योफफमाकुंरे सेवकहेंलषसोनीया भूकेंकादोगाकुंरे
३७ ध० सिद्धचक्रचितमांधरी नवपदजापनकेंरे वनवाहणउपरवडी सिंद
नादतेमंकेरे ३८ ध० जेदेवीहसमनहती दुष्टाईतेडरेरे वाहणतस्यांकारजस
स्यां वाजेंमंगलतूररे ३९ ध० बीजेंथेंमेंदालए जिजीचितमांधरज्योरे विनयक
हेंएवाहणेः नवियणजवजलतरज्योरे ४० थ० रुहा तेदेषीचिंतरंयवल चा
ढ्योचिंतामणिहाथ नकुंवपत्ततोफफहविं जोएआवेसाथ ४२ एकलापदीना

२ २१ धवे सफींटसहसदसमामटा आवेंअंत्यरपासेंरे अभिमानीउद्धतपणाः कागु
प्रांकथनप्रकासेंरे २२ धवे उविन्याबंहृकन्याउपृ धवलक्षिणहृकरूगेरे वलिकरसं
तुजनेहली मकरिमानमनिजकवोरे २३ धवे बलिनविथाईसिंहनी मूरवदियेविमासोरे थ
ववपमलोवसिर्दिसुं ववनकांइवरांसोरे २४ धवे ववनसंगणितववांकमा सेवनेंम्सनट
स्रुणावेंरे सेवजीवीनवीराम्यनें बजलांकाटकथणावेंरे २५ धवे एकलनेदोदायसेनसंफ
जवअरूलीवलजकेंरे वोरटाविविधंकलपयो कायरहियदांधूजेरे २६ धवे कंवती
रसरवाशिना जेजघालेंधायरे कुंयरअंगेलांगनही उंथधीनेमहिमायरे २७ धवे भइसा
परिंरलपेतमां विकुंहिसिंधिंगनधायरे कन्याजोधवेजाजिस्या सिगेवलगाजायरे।
२८ धवे कुंयरताकीजेहने मारेंलागीलोटेंरे लहबूहताजांबाघडे लेशूहवीइंवुहदेंरे
२९ धवे मस्तकफूटांकेईनां वन्याकेइनादांत्तरे केईकयेंलोहीवरें वदिसकन्टनीपां
केईसांतेंतरणांदीइं गलीयाघऽने
तेरे ३० धवे केईपईवाहाटमां केइपोलमांपेंगरे

क सोहिं बेंवाणीपडे करि दीयें धनरोक २२ हवें नांगरउपाडवा वहाणकेंगनीजाम ना
लिथकुंकितालिसवि कुइंधणीधनतांम २३ संवि वाहणनानांगरी करेंपरापरजोर
पणिनागरहालेंनही सबलमच्यातवसोर २४ धवलसेवकोबोथयो चिंताचित्तन
माय सीकोत्तरश्रवणगयो हवेंकिमकरवुंमाय २५ सीकोत्तरकहेंसवि संभणि वा
हणथंभ्यांदेवि बोमेंबत्रीसलषणा पुरुषतणोवलिलेवि २६ ढाल श्रेणीकमनअ
चरिजथउं एदेशी धवलसेवलेइ भेटणुं आव्योनरपतिपायरे कहेंएकनरकाज
नेंदीयो जिमबलबाकुलथाइरे २७ ध० रायकहेंतेनरदीउं संगानहीजसकोइ
रे बलिकरज्योअहीतिहनें जेपरदेशीहोइरे २८ ध० सेवकविंडुंदिसेंसेवना फिरें
नगरमांहिजोतारे कुंयरदेषीसेवनिं वातकहिसमोतारे २९ ध० दीसेंबत्रीसलष
णा पुरुषएकपरदेशीरे कहोतोफालीआणीइं सफलिनकोतसलेसिरे ३० ध० ध
वलकहेंआणोइहां मकरोघणीविलंबरे बलदेइनेंखाजीइं चाहणनहीनसवुंव

धरदोयजणां चाल्पापर्वतमांहिरे धाउरवादीरससाधता दीठातिहांतसबोहिरे
२३ वा० तेहविद्याधरनेकहे उमेविधकहीतेहरे तिणीविधेंपक्षेमबकाकस्सा
नपांमेंसीधएहरे २४ वा० कुंयरकहेंमकरदेषतां वलीएहकरोविधरे कुंयरनज य
रमहिमाथकी थईतत्तषीणेंसीधरे २५ वा० धातुरवादीकहेनीपनुं कानकरूंम
पस्नावेरे एहमांथीषकलीजीइं उमजेमननावेंरे २६ वा० कुंयरकहेंमकजपषन
ही कुंणउपाहेंनाररे अल्पतिणेंअंचलेंबांधिउं करीघणीमनोहाररे २७ वा० य
कऋभेंकुंयरआवीया नरूयच्चनगरमझारिरे हेमषस्वीसजाईकरी मलांवस्त्रद
थीयारेरे २८ वा० सोवनमढीयंतेउपधी बांधिदोयनिजबांहिरे बजविधकोति
कदेषतो फिरेंनरूयच्चमांहिंरे २९ वा० खंदवीजोएहरासनो एवीजीत्तसदा
लरे विनयकहेंधर्मथीस्फरकत्तोयें जिमराउश्रीपालरे वा० ३० दूहा कोसंवी
न्यरीवसें धवलसेठधनवंत लोकअनर्गलधनघणी नांमकुबेरकहंत १

लदालक्ष्यागरे चंदनाभीसरेंपंसतें ॐमरेंकीधपयाणरे २४ वा॰ देव्हारनगर
नानवनमां जोतोकोतिकरंगरे एकलोसीस्फेंमालतो चढपाल्हणरंगरे २४
वा॰ सरम्मीतलवनमान्नमो तिहांवपकवांहरे जापजपंतोनरपेपिते क
पीअवधवांनिरे २५ वा॰ जापस्नेमकरीदस्यंते बोल्योकरीप्रणांमरे कांइरुसनवं
उंच्यावीयो मरोवंमान्दसंकांमरे २६ वा॰ ॐमरकदेंमाफमारघूं करोजेउंमकां
मेरे थईलआगेंउपगारने दीधंधनदेहरान्जेरे २७ वा॰ तेदक्कदेंदपाकरीघणी
विद्याप्रकफजदीधरे घलेवघमकस्योसधवा पत्निकारज्जनसीधरे २८ वा॰ उत्त
रमाधकनविना मनरेंहनरीवांमरे तिणेंउमरएकरुंवीनती अवधरीयंस्वांमिरे
२९ वा॰ उत्तरमाधकफजयकां करेंउफपोनरे ॐमरकदेंसाधिविद्याप्रकरेंव मन
दत्तीथीग्यानेरे ३० वा॰ कुंयरसोहंज्यथीत्तसवीलें विद्यातिथंसीधरे उत्तम
पुमपजेव्यादरे तिहांहेमंनवनीवरे ३१ वा॰ कुंयरनेंतिलविद्याघरें दीक्षतेय
[illegible] एकजलतरणीअवरची लागावासनदीकोयरे देयरदिक्षा

करज्योतेमपंथेरे ३ कु० इमसीषामणिदेईघणी मातातिलकवधावेरे सबदसकुन
होइंनला विजयमुहूरतआवेरे ४ कु० रासरच्योश्रीपालनो तेहनेबीजेखंडेरे
प्रथमढालविनयेंकही धर्मउदयथितिमंडरे ५ कु० इहा हवेमयणाइमविन
वे तेमसुणऽवधिहमनेह अलगाथीणएकनहीरहुं जिहांवायातिहांदेह ६ अ
मनिसहतासोहिलो विरहदोहिलोहोइ कंतविवोदिकांमनी जलनजलंतीजो
य ७ कहेंकुयरसुंणो तुंसासुपदसेवि कारजकरिनेतावलो तुंआवूंछुदेवि
८ मनपाखेंमयणाकहे पीउतुमवचनप्रमाण वेपंजरसुंकंपकं तेमसाथेंमुझ
प्राण ९ ढाल रागमल्हार कोस्यातेउनीआगणें एदेशी वालिमवहिलाआवजो रे
एआंकणी करज्योमाहरीसाररे रषवीसारीकंकता नहीनवनवीनारिरे १० ने
वा० आजथीकरीसएकासणं कस्योसचित्तपरिहाररे केवलभूमिसंथारस्युं
नज्योस्नानसिणगाररे ११ वा० तेदिनवलीकदीआवस्ये जिहांदेषीसपीउपाय
वीरहनीवेदनावारस्युं सिद्धचक्रसुपसायरे १२ वा० सघनमोकलावीइणीपरें

स्यपालोरे ९४ क० राजकुंलोरोआजरीसभ्यां उँलोलोपीउंमग्रोणरे दीसे र
म्ग्राकोइहंपण उम्हचरलेअमग्रोणरे ९५ क० चितवाहेतोआपणं लीजेंचंपाराज
रे अदेंश्याळेंवालीयें सवलसेनलेईसाजरे ९६ क० उंमरकहेंसमराप्तलों
वलेनलीजेंराजरे आपपराक्रमजिहांनहीं तेआवेंकुंणकाजरे ९७ क० तेहना
णीश्रमेचालस्फं जोस्फंदेसविदेसरे फजानलेलपमीलहीं करस्फंसकालविसे
सरे ९८ क० मायरूणीआवीकहें उंआवीसनूकसाथरे घणीअनधीसेएकजो
उंदीजफकएकआथरे ९९ क० उंमरकहेंपरदेशावां पगबंधननवदायरे तिण
कारणउमेइहारहो थोआसीसपसायरे १०० क० मायकहेंकुंसल्यारहो उत्तम
कामकरेज्योरे फजबलेंवयरीवसिकरी दृसिसणवेहिलंदेज्योरे १०२ क० संकट
कष्टआवीपमें करज्योनवपदश्यांनरे स्यणीरहिंज्योयागत्ता सर्वसमयसावधांनरे
...राभीथायकसीध्वचक्रना जेहकस्लाकेंथंथरे तेसविदेवीदेवता यतन

...श्रीपालनी कहिवामनउल्लास ८५ इकदिनरमवानीकन्यो
वाहटैकुंयरश्रीपाल सबलसेनसंपरिवस्यो योवनरूपरसाल ८६ मुखसोहेंपू
रणससी अरधचंदसमभाल लोचनअमीयकचोलडां अधरअरूणपरवाल
८७ दंतजिस्यादाडिमकली कंबमनोहरकंबु उरकपाटपरिघदयतट भुजजेते
गलैलंबु ८८ केंडिलंककेसरीसमो सोवनवर्नसरीर फूलषरेंमुखबोलतां ध्व
निजलधरगंभीर ८९ चोकरवाहटिमिल्यारूपेमोह्यालोक महलगोषमेढीचढे
नरनारीनाथोक ९० फगधाश्लेमायने माणकमणिअभिराम इंद्रचंदकेंचक्कवि
स्पामरांमकेंकाम ९१ भायकहेंमोटेसरे अवरमकंबोआल जाइजमाईरायनो
रमवाअंयरश्रीपाल ९२ वचनसुणीश्रीपालनें चित्तमेंलागीचोट धिगसरा
नामेंकरी फजदलषावेंलोक ९३ ढाल चतुरसनेहीमोहनां एदेशी हिवराकरीध
रिआवीया एणीकणी चपलचित्तश्रीपालोरे उत्सकमनदेषीकरी बोलतें
उतमआपगुणेसुणी मधमबापगुणेरा अधम...

घरि घोडिउछले ज० नीराज

लसिणगारीउं ज० चउटांचौकविशाल फ० घरिजमाउमहोत्सवें ज० तेडिस्याव्यापाराय फ० संपूरणस्

नमाल फ० ७९ घरिजमाउमहोत्सवें ज० नयरमांहिंसगटथई फ० विफलेएद

घणोगवह ज० सिद्धचक्रसुपसाय फ० ८० नयरमांहिंसगटथई फ० मयणारापीविख्यात फ० ८१ रासर

उवास ज० जिनशासनउन्नतथई फ० विनयकहेंसिद्धचक्रनि ज० सेव २

लोश्रीपालनो ज० तेहनीइणपारमीढाल फ० विनयकहेंसिद्धचक्रनि ज० सेव २

फलेंततकाल फ० ८२ वंदवंदमिलोजिमवंदनश्री श्रीपालचरित्रअवंद श्रीकि

र्त्तिविजयवाचकथीलह्यो प्रथमखंडरूपविनइंकह्यो ८३ इतिश्रीमहोपाध्याय

श्रीकिर्त्तिविजयगणिशिष्योपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितेप्राकृ

तबंधेनगरमातपितसिद्धचक्रमहिमावर्णनानामप्रथमःखंडःसमाप्तम् इतिप्रथ

मखंडसमाप्तम् श्री . एर्द्धप इहां सिद्धचक्रआराधतां पूरेंवंछितकोडि सिद्ध

तस्मो विनयकहेंकरजोडि ८४ सारदसारदयाकरी दीजेंवचनवि

णी ज० कफ़ञलनरिठेवार ग० परणिणाङीतमपरिहरी ज० अवरकसे र
नरनार ग० ७२ इणिपरितनोजरलो ज० जवदीवीतराय ग० पुन्यपालन्न
वसरजही ज० आवीअणमें वाय ग० ७३ राजिवंधारीफजघरें ज० जत
जमाइरूप ग० सिद्धचक्रसेवाफली ज० तकस्योसकलस्वरूप ग० ७३
राइंआवीउजथ्यो ज० करवेगितआकार ग० मनिचितेमहिमानिलो ज० जैन
धर्मजगसार ग० ७४ मयणांतेसाचीकही ज० सत्तामांहिंसविवात ग० मेत्र
ज्ञानपणेकरस्के ज० तेसघलंमिथ्यात ग० ७५ मेंतुकडुपदेवानणी ज० को
धोएहजपाय ग० इपटलीनेंरूपथयो ज० तेतुकवुन्यपसाय ग० ७६ मया
णांकहेंरूणीजातजी ज० इहांनहीउमवांक ग० जीवसयजवसिकर्मनें ।
ज० ऊंणराजाउंणरांक ग० ७७ मातीजीमयणांत्तणी ज० रायेमनावीमा
य ग० सजनथयासविएकमना ज० उलटअंगनमाय ग० ७८ नयरसप

त्रम्पयपाल ६२ ढाल रायकहेरांलीप्रतिस्फलीकांपनि ऍदेत्री आवीजमारी
णा जयवंताजी अन्हघरकरोपवित्र फणावंताजी मजानंदेअचरीयअपजइं।
जप स्रूंणालांतुम्हचरित्र गं० ६२ गतवेंसारीउत्सवें जप पधराव्या निजगेह गं
वे मातलस्रूसरीसूरवइं जं० भोगभलाधरीनेह गं० ६४ एकदिनवेंवापालीइं
मयणांनेश्रीपाल गं० वाजेंढेदेनवनवें जप मादलकंगलताल गं० ६५ रा।
यरांणीरंगइंजइं जं० थइरनाचेंपात्र गं० नरहेनेटनावेंनला जप वालिपरिवा।
रिगात्र गु० ६६ इणिअवसरस्यवादीथी जप पाछावलीउराय गं० नृत्यसं
लीजोरसो जं० प्रजापालतितिवाय गं० ६७ अस्वजोगवलांस्वर्गनां जप दी
वांस्त्रीभरतार गं० नयणेलागोनिरपवा जं० वितचमक्योतितिवार गं० ६८
...लिमयणांजेलपी जयप मनउपनोसंताप गं० अवरवरकोइपेखाइं
... गं० ६९ धिगरकोधतलेंपसें जप मेंअविचार्यांकीध
... कोढीनेंकरदीध गं० ७० एणिराजाईंतुलमग

जापकारे वलगोरेषविराध ५१ देषे कुष्टीसंगतथीथयोरे श्रुतनेउंबररेण माहि
मनचिंताघणीरे कविनकरमनाजोग ५२ देष श्रवनलावीतेहनेरे मातावलीविदेश
देखतेसमजोवानणीरे सहतोघणोकलेश ५३ देष ज्ञानीनेवचनेकरीरे सफलफलीम
कणाश तेहजउंकमलवमार आंबेवीउमपास ५४ देषे राससुंमाश्रीपालनोरे तेह
नीदसमीढाल विनयकहेंश्रूंनेंकरीर उपथायेंविसराल ५५ देष दुहा रूपसुंदरीअव
णसुंदरी विमलजमाइवेश हरखेंहियेंगहगही इणिपरिकरेंउपदेश ५६ बपतवंतम
अणांसमी नारिनकोसंसार जिणेंविजेंकुलउद्दर्यो सतीशिरोमणिसार ५७ वरपति
स्नेंपामिउं नरपतिनिरमलवंश उत्रसिंहरथअरथनो कुविकुलअवतंस ५८ रूपा
सुंदरिंगइजइ वात्तस्णणीसोइ निजबंधवउन्पपालने तेपिणहरषितहोइ ५९
चउरंगीसेनासजी साथेंसजनपरिवार तेजीउरीयनवावता अवलवेषअसवार
हय रतनजडितफलकेंघणां धरयांसुरीआपांन ढोलनगारांगहगहे नेजासुरेंनिं
साण दूर जोणजीवरजिहांवसें तिहांआव्यातत्तकाल निजमंदिरपधरावया उन्पवें

नारे श्रतीसोतनथाट तसमिरेंवेलापदिरे पदौदेवमिरदाट ४२ द
पलीगरे चहीपंथसिरमृथ तववालकचूणोथयोरे मांसाकरडथ ४३ देप
नवरोत्तीरांणीकरेंरे डधरसांवबडर जोलदींरेंवेंरूकसारे तोलसांरूरकपू
र ४४ देवे हवेंजातोमारगमिलीरे दकवुथीनोमींज रागीमिलीयासात्तसेरे ही फो
मेंकरत्तामोज ४५ देप कुहीयेंपृत्यापत्वीरे सयलस्फलावीवात वलवुंऊटीड
मकेंरे आरतिपकेरवांत ४६ देवे गाबीत्र्प्रद्सरणोरहीरे मनिराषोत्र्प्राराम
एकोत्र्प्रद्जीवतारे कोरनलेंउमनाम ४७ देवे वेसरत्र्प्रापीवंसवारे टं २
कीसघलंत्र्पंग वालकरापीसादमारे वेवीथरवदंगा ४८ देप एद्वेंत्र्पा।
व्यासाकत्तारे वयरीनात्र्प्रसंवार कोरस्वीदीठीरहांरे पूर्वेवारीवार ४९ देवे
...ह्हांत्र्पावुंनथीरे ज्ववमकंवोत्र्पाल ववननमानोत्र्प्रस्त्तणरे नयले
... जोजोस्पातोलागसंरे त्र्पोंरोपात्र्प्रसाथ नागाबीदव २

मालदीरे मूसकरेंसमगूढ ३२ दे० मतिसागरनेंमारवारे वलीहणवाम्रीयाल रा
ज्पलेंवानेंसातणोरे उश्रथयोतजमाल ३३ दे० किमहिकमंत्रीसंरेलहीरे तेवयरी
नीवात राणीनेंम्रावीकहेरे नासोलेरात ३४ दे० जोजास्पोतोजीवस्पोरे रू
तजीवाहणकाज कुंयरजोकसल्पोहोस्पइरे तोवलीकरस्पोराज ३५ दे० रा
णीनावीएकलीरे उच्चढावीकेंमि उतटतजालीयमोरे विसमीजिहांवइंवोम
३६ दे० कांसकमोजमकांषरांरे बापरमापरपोह फणिधरमणिधरजिहांफिरेरे
अजगरअंदरगोह ३७ दे० तजिम्रबलारमवंभैरे रयणीघोरम्रंधार चरणें
चूवेंकांकरारे जरेंलोहीधार ३८ दे० घूघूघूघूहूमकरेरे वानरपांमेंहीक ५लट
लपरवस्तथीयमेंरे नदीनीजरणांनीक ४० दे० वलीतंबिजंकंम्रावपुरे सत्पसी
लसंघात वपत्तवलीकुंयरवमोरे तिणेनकरइकोईघात ४१ दे० स्यणदेंमोलेसी

×वाम्रवाघनेंकरगमोरे सोरकरेंसीयाल चोम्रस्वरमनिंवात्तरारे दिइंतफलत्तीफाल× ३७×३५७×

त्राटरे आवेंघणांवधामणांरे मिणघासांघरहाटरे २५ जू० राजामत्रउलटघणो
रे दानदिईलषिकोमिरे वयरीवणिसज्जोपीयारे बंदीषानोछोमिरे २६ जू० धवल
मालदिइसंदरीरे वाजेंढोलनिसांणरे नाटिकहोईनवनवारे महोत्सवअधिकमं
माणरे २७ जू० नातिसजनसज्जुंतस्यारे भोजनषटरसपाकरे पानदीपक
वाननोरे सालस्करहाघनाकरे २८ जू० भूषणअवरप्रदिरामणीरे श्रीफल
कुसुमतंबोलरे केसरतिलकवलीवांटणांरे चंदनचमारगेरोगलरे २९ जू०
राजरमणीअम्हपालस्येंरे पूर्नेलह्योएवालरे सजनच्आमिलिनिहुरे नापठ
वेंश्रीपालरे ३० जू० रासरुमोश्रीपालनोरे तेहनीनेभीढालरे विनयकहेंश्रोता
घेरेंरे होप्योमंगलमालरे ३१ जू० दूहा पांचवरसनोजवथयो तेकुंयरश्रीपाल।
तापज्वलरोगिकरी पितापुहुतोकाल ३२ सिरकूटइंपीटईहीई रुइंसकल
परिवार सामीर्तेमायात्तजी कूणकरस्येंअमसार ३३ गयाविदेशोंवाजमेवाल्ह

कोइकंवार इंणवाटइंवउलावीया नमिलेंबीजीवार २४ हेजेंहसीबोलावत र
जेषिणमांकेइवार नजरनमंफइंतेसजन फूटेंनहीयागमार २५ नेदलग्र्या
णेपाहरे पुत्रनथाप्योयाट एवमीउत्तावलिकरी स्फंवाल्पाइणिवाट २६ रा
शिहीयमेंफाटते सकलसबाहोकाज मत्तिसागरमंत्रीतिसइं इमसमफावेंच्या
म २७ हवेंहियकुंकावुंकरी सबलसंबाहोकाज पुत्रतुम्हारोनांनमो रोतांनर
हेंराज २८ कमलाकहेंमंत्रीप्रतिंहवेंतुमेत्र्याधार राज्पदेइश्रीपालनइं सफा
लकरोग्र्यधिकार २९ ढाल रामास्रू जगतफस्हीरजीरे एदेशी मृत्तकार्
जकरीरायनांरे सकलनिवारीशोक मत्तिसागरमंत्रीसरेरे थिरकीधोसविलो
क ३० देषोगतिदेवनीरे देवकरेंस्नेहोय ऊंणइंवालेंनहीरे ग्र्यांकुणी राजव
वीश्रीपालनेंरे वर्त्तावीतसग्र्यांणि राजकाजसविवालवइंरे मंत्रीव इबुद्धि
नीयाण ३२ देष इणिग्र्यवसरिश्रीपालनोरे पीतरीग्रंमतिमूढ पारि क्ररसघलो

रूपपलोटरे ऊलजलअच० १५ जेसद्जसकचिन्तागविना देखेतेअनुनवयो
गरे एणीअतीकरेंदरणीतहोइ कंदंमकंदचोइट्टसंयोगारे ऊलजलं १६ त
सहछिसरागविलोकतो विचविचंदनिजचामनरूपरे दासइतकुमरीसंवह
दी परापरीपरंभंकरीचूपरे ऊलजलं १७ साचेतेईनटनागरमनणी बाजीब
जीसुतजेमरे मनरजीतोकाजीसंकरे आजीवीतएदसंपेखेमरे ऊलजल १८
दवेवर्णवीइजेनपश्चं वतीद्वारकरेगुणपोषरे तेतदनिकुमरीमांदोषे वयस
पदेशनादोषरे ऊलजल १९ वरणवतांतसकमनपजे व्हितातदनुसांमरे
प्रतीहारीयाकीकुमारीनें सानीरमेअतिअतीरामरे ऊलजल २० तेमधकर
थकचीलसेलनो दधिमधकसाकरद्राखरे वणिजेदनुंमनजीदांवेथीव तेमधकरन
बिजीलाषरे ऊलजल २१ दुणअवसरथंभनीपुतली मुखेअवतरीद्वारनादेव
र कदेगुणंगारदकजो नावरमेतोवामनवरीलतमेनरे ऊलजल० २२ तेस
णीवरिलतेकुमरी दाखेनीजअतिराइकंरूपरे तेदेखीनीतुंबेरक्कबजने त
वरुवारांगणाचूपरे ऊलजल २३ गुणअवगुणफगधानवीलदे वरेंकुबजन
जीवरनूपरे यणकंन्यारलतनुकंबजनु उकरदेसोवरक्षपरे ऊलजल २४


तेद्नांकाजससांवल्यावांनेरे जरजरं० १३ इणीअवसरेनरप
तीकंयरि वरअंवरगिवीकारूढरे जांणेचमकंतीवीजली गिरी
उपरेंसंजउथरगढरे जरजरं० १४ मुगताफलहारेंसोसती
वरमालाकरमांहेंलेइरें मुखमंडपआविकयरनें सदृसास्क



रेखुदन [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ॐ [illegible]
मस्त [illegible]
लदिनी [illegible]
रि [illegible]
[illegible]

ॐ नकंवनमनांमस्यापगंजा नविकंर स्यापनपांगार वनरनदीश्वतिमिरजनजी
कंश्वरमयलगंग नागार ८८ ॐ देव्यान्श्वनंनाऽगिस्यवसंरजी हनेगयगनंद्या
नर वंवेवदंनंऋऽननमस्तजी नक्रगवगनीश्यातिर ८९ ॐ विद्यानारगक्ष्मीस्या॥
वीयाजी दवघगानमगाथ्रर जऽगनांरंजिनवदीश्वाजी ॐगयाश्रीजगनाथ्रर ८८
दवरविनवरश्वासंनजी नवातिन्हांमृनिरार्यर दिङ्मश्करधूनंदमनाजी नविकश्वा
वगाक्षवदार्यर ८९ ॐ नवपदमदिमातिसांवरगंवजी श्रवानविकामिन्नवक्षर ८
दपरनंवलसीडंरथीजी जीनानदिरश्वमक्षर ९०. ॐ ज्यंदासगमविनपमजी वगि
रवांमक्रद्विरमातर गननवदश्वागमनाजी तिमक्रश्वरश्रीपातर ९१ ॐ वमनयनय
नपरवदाजी नक्रगाक्रश्वरश्यावानर फनिवरनअक्षरथीकंरजी नदनुरवीश्रमातर
९२ ॐ नवंमवश्पृदसाश्वानांयाजा नधाम्पांवनयचंवारर नदसगीननफदरवीनजी
दनश्यासविपरिवारर ९३ ॐ रमकसीनफनिवरनमपत्याजि गरगगारगजजायर

जनाण ७३ रागकेदारो शफ्नदंक नामबोयाँमा गिरिंदुणी एंदवी मारगमन
सुखतां



कपूरहोइं अतिकजलोरे कुंदश्री मनमंदिरदीपकजिस्यो दीपेंजाकेंझमाल दीइं
लवेरे अंगेअज्ञानअनेक ५४ पिताजीमकरोकूरगुमान एकछिद्रअंधारनिदान
जेहवुंजलधिअमानपीताजी मं० स्फटुअसकूइंअनुलवेरे केवलकर्मपसाय
अधिकअनेंऊजेदमारे कीधुंकोणनजाए ५५ पी० राजाकोपेंकठाकठ्योरे मानवत
वान्हीपाणीवमरणथइरे कीधावचनविचारे ५६ बेटेतिलिरसनणीउं [illegible]
तेलोपिशुकलाजरे बें० विणसान्हुंनिजकाजरे थासीनेंथाडीकरिरे भोजन [illegible]
रयणदीनेंसेंदीत्तीरे भोगलजानरपूरे ५८ बें० चाटपटंबरपदिरणेरे प [illegible]
वेंपाय जगमांसकूंजीजीकरेरे एसविभुजपसायरे ५९ तत्वविद्यातोरोतजी
मनआणीमनरीस कर्मज्ञिमकुलजपनीरे भेकिहांजोयाजास ६० पी० [illegible]
पुंधामनेंरे नवभकस्सांनिवेद तसविकर्मप्रसादलेरे एअवस्थारोभेद ६१ पि० जोहे
ववादजंमनेंथणोरे कर्मजयरिएकंत तोजमनेंपरणाकस्सूरे कर्मआणेपाकंतरे ६२
बें० मानक्षणजुनेएणीडरे माहरसनासतथ्य फलदेखाडुएहनेंरे सकलसनापरत
६३ बें० स्कंभीईसांसीभवीरे अधायकअज्ञान सजनलोकगाजसकूरे ५ देखीए
अपमानरे बें ६४ जगहलोकनिंदसजुरे नपएदनुधूलि ठेजूनातंनिवातम

रसे धीरवारीमनवचनकाय रहीइ कध्यांनसं होलाल रत्नौइरक
ध्यांनसं रत्नत्रयतत्त्वपरिचिंतअहोतसध्यांनसं होलाल अहोतस
ध्यांनसं ८ तत्र जिनसौहमवासिसुरवरआविओ होलाल सुरव
आविओ विमलेसरमणिहारमनोरथदूरलावीओ होलाल मनो
रथआविओ थइथणंसक्सनृकुंमरकंठंठवें होलाल कुंअरकंठें
तेहतणोकरजोमीमहिमावरणवें होलाल महिमावरणवे ए जेहरु
वें वेंस्युंतथाईततणीए होलाल थाइततथिण ततथिणवेनीतवांनी
इगथणांमीए होलाल जाइंगथणागणं आवेइत्रीए अभ्यासकला
चिंतधेर होलाल विमलाचिमनवीकारतेसंघलासंदेरे होलाल संघ
लांसंदेरे १० सिद्धचक्रनीसेदकहुंदेवता होलाल कुंडुंदेवता केव
रीआअंसएहनेसेवता होलाल एहनेइसेवतां सीद्धचक्रनिनक्रियछिमव
भरीइ होलाल घणीजिनधारिइं कक्रनेइकोइकांमपमइंसंताख्यिहोलाल
कामपमइंसंतारीइ ११ एमकहिनेइत्रेसंकरनिजथांनिकेंगयो होलाले नि
आंनिकेंगयो कुअरपोढ्योसेजनिचिंतामनथयो होलाल निचिंताम

आगाजिसपरमे
ततिसेंइमनचेतवेहोला
ल तिसेंइमनचेतवे क्रम
ननयरमकारजइवेसं
हवेहोलाल जइवेसंह
वे १२ नयणनधाफिजांम
विलोकेआगलेहोलाल
विलोकेआगलेहो देमेन
नोआपनयरनिनागलि
होलाल नयरनिनागलि
दीगेतिहांदरबारतेविण
वजावताहोलाल विण
वजावताहो राजकुंवर
नारूपकलागुंणगावताहो
लाल कलागुणगावतो









गात्र















द्वार

१५

कर्ण

उपकर्ण

पीठ गात्र

वीथी १४



कर्ण

द्वार

उपकर्ण

१८

पश्चिम